

504



TEST REQUISITION FORM

Test Name/Test Code

(Please refer to the Directory of Services for correct name and specimen type)

EB -> PCR

Patient Details

First Name: SHELLY Last Name: ARUN

Age: 28 Yrs Gender: Male Female

Address: _____ Contact No.: _____

E-mail ID: _____

Referred by: _____ Contact No.: _____

For Maternal Screening - Date of Birth: DD MM YYYY

Weight: _____ kg. Height: _____ ft _____ inches, LMP _____ Last Ultrasound Report

Instructions to Laboratory/Clinical Information

Billing Information

Client Name: Health Medicos

Client ID: SKRANUSIK 1622@gmail

Total Amount: Cam

Amount Received: _____ Receipt No.: _____

Amount Balance / Due: _____

Payment via: CASH CHEQUE CREDIT

Sent Specimen Information

Temperature: Ambient Refrigerated Frozen

Sample / Vial Type	Vial ID Barcode

Specimen Type Received (For MolQ use only)

- Serum
- Plasma: EDTA/FL/CIT
- SST
- W. Blood EDTA
- W. Blood Fluoride
- W. Blood Heparin
- W. Blood Sodium Citrate
- Bone Marrow
- FN Aspirate
- Tissue Formalin
- Paraffin Block
- Smear
- Slide (H&E)
- Pus
- Blood Culture Bottle
- CSF
- Fluid
- BAL
- Sputum
- Urine
- Stool
- Swab
- Others

Other Sample Type / Source: AM

Received Specimen Information (For MolQ use only)

Temperature: Ambient Refrigerated Frozen

Date: _____ Time: _____

Patient ID: _____ No. of vials/container: _____

1	2
---	---

Signature of Accessioning Officer(s)

Total No. of Vials/Container: _____

Specimen Collection Information

Date: 5/9/2018 Time: _____

Fasting: Yes No Fasting Period: _____ Hrs.

Collection by: AM

Urine Volume: _____ ml Hrs. _____

Patient Consent : I hereby authorize MolQ Laboratory to use and share with affiliates my personal information including but not limited to any condition / disease information etc. as may be necessary to perform the test or services etc. Medical records/information, to the extent of the applicable by laws and regulations, will be kept confidential and will not be made publicly available. Further, I authorize the use of the leftover specimens for immediate research and in future research of any kind and at any time in the future. The samples will be coded to maintain confidentiality and will be discarded as per the rules and regulations specified as applicable by law. In the event of any publication by MolQ Laboratory, patient's identity will remain confidential. I agree to this access of my medical records and specimen for diagnostic and research purpose.

Disclaimer : For any test/service related complain/query please contact MolQ Laboratory for resolution. In case of any dispute the jurisdiction will be Head Office, Dehradun, Uttarakhand. The financial liability or compensation of any sort is not more than MRP of the Test requested.

रोगी सहमति : मैं मोल्क्यु प्रयोगशाला को अधिकृत करता हूँ कि मेरी पूर्ण व्यक्तिगत जानकारी अपनी किसी भी शाखा के साथ साझा कर सकती है। मेरी बीमारी की हालत या सूचना का खुलासा अगर परीक्षण के संचालन के लिए आवश्यक है, तो मैं इसकी अनुमति देता हूँ यद्यपि यह जानकारी उस सीमा तक साझा की जाए जो कि कानूनी सीमा के अंतर्गत हो। मेरी इस प्रकार की जानकारी को पूर्ण रूप से गुप्त रखा जाए और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध ना कराई जाए। इसके परचात मैं प्रयोगशाला को देबारा अधिकृत करता हूँ कि जो नमूना जाँच के लिए उपलब्ध करवाया था, उसमें से बचे हुए नमूने को प्रयोगशाला कमी भी और किसी भी समय किसी भी प्रकार के प्रयोग के लिए उपयोग में ला सकती है। शेष नमूने को पूर्ण रूप से अंकित किया जाए और गुप्त रूप से रखा जाए, जब इसको नष्ट किया जाए तो पूर्ण रूप से नियम और विनियमता का उपयोग किया जाए। किसी भी प्रकार के मोल्क्यु प्रयोगशाला के प्रकाशन में रोगी की निजी जानकारियों को पूर्ण रूप में गुप्त रखा जाएगा। मैं सहमत हूँ कि मेरी मेडिकल रिकॉर्ड और मेरे बचे हुए नमूने को नैदानिक प्रयोग और किसी भी प्रकार के अनुसंधान के लिए उपयोग में लिया जा सकता है।

अस्वीकृति : किसी भी जाँच सम्बन्ध शिकायत या जानकारी हेतु आप मोल्क्यु प्रयोगशाला को सम्पर्क कर सकते है, किसी भी प्रकार की कानूनी झगड़े हेतु हमारा मुख्यालय देहरादून, उत्तराखंड है, किसी भी जाँच का मूल्य उसके दिए अधिकतम फुटकर मूल्य से अधिक नहीं होगा।

Patient/Client/Doctor's Signature
Date: 5/9/2018



ATRI NURSING HOME

(Advanced Obst. & Gynae Centre)

Sonepat Road, Rohtak
www.atrihospital.com

Ph. : 01262-650198
Mob. : 086077-74555

Dr. Sangeeta Atri
M.B.B.S. M.D. (Obst. & Gynae)
(Reg. No. : HN 4003)

- Painless Normal Delivery
- Laparoscopic Surgeries
- Infertility

OPD Timing - Monday to Saturday
Morning - 11.00 AM to 1.30 PM
Evening - 4.00 PM to 5.00 PM
Sunday OPD Closed

Name Shelly S/o, D/o, W/o Arun Age 28 Date 8-1-18

581/27
Gandhi Nagar
7206545210

B

UMP - 6.1.18

MH - 4-5 day
28-30

MPX 1.7ycam

10 infertility

HB - 12.4 g/dl

menstrual - NCG

Bldg (R) - 83 ng/dl

TSH 2.0

13 11.9

14 6.7

(Taken
clomiphene
1 cycle)

HB - 14.9 g/dl

VDRL - NR

HIV, II - NR

HCV NR

E2 - 30.0

wants to conceive
trying since
1 year

MS 4 - 80 million (total count) (9.9.17)
Active 70 million

LH - 7.10

FSH - 5.20

USG m2-1-17 - normal study

Prolactin - 16.90

Testosterone - 1.26

ADV

Complete Haemogram
HIV, II, FBS Ag, HCV, VDRL
Prolactin

Bkdx x-ray - NAD.

D2/D3: FSH, LH, E2, Testosterone

(Di. Puerperal TB - HPE
PCR (myc).
AFB)

USG - 2-3 after stoppage of menses (USG 21.1.18)
E1 - 6.00
Normal study

ovulatory USG - advised.

अत्री नर्सिंग होम

सोनीपत रोड, रोहतक

Avoid consultation(s) over phone. In case of emergency report to hospital
Contents of the prescription are not valid for Medico Legal Purpose